



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 53-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019 (PAUSA 10, 1941 SAKA)

CONTENTS		Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	.. 1101-1181
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	.. Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	.. Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	.. Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	.. 533-539
PART III-A—	Notifications by Universities	.. Nil
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	.. Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	.. 1361-1425
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	.. Nil
SUPPLEMENT PART I—	Statistics—	.. Nil
SUPPLEMENT PART II—	General Review—	.. Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT	—Contents	.. (cxi)
Ditto	PART I—Act	.. Nil
Ditto	PART II—Ordinances	.. Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	.. 843-872
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	.. Nil



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 53-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019 (PAUSA 10, 1941 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

**संख्या 50/1/2019 5S(I).**— पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) तथा पंजाब अभिवृत्ति अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) की धारा 105 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियमों के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के सहायक कलक्टर के ओदशों और डिकियों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त करते हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें विशिष्ट आदेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहली बार पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) तथा पंजाब अभिवृत्ति अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन बतौर सहायक आयुक्त या अतिरिक्त सहायक आयुक्त कलक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी/हो। तथापि कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तैनाती के दौरान उन द्वारा किया जाएगा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019.

केशनी आनंद अरोड़ा,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT****PERSONNEL DEPARTMENT****Notification**

The 17th December, 2019

**No. 50/1/2019-5S(I).**— In exercise of the powers conferred by section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) and section 105 of the Punjab Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887), the Governor of Haryana hereby appoints all the Additional Deputy Commissioners as Collector to hear the appeals from the orders and decrees of Assistant Collector of the 1st and 2nd Grades under the said Acts, provided they were first time in the beginning delegated the powers of the Collector by the State Government individually by a specific order as Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner under the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) or the Punjab Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887). The powers of Collector shall, however, be exercised by them while posted as Additional Deputy Commissioner.

Chandigarh:  
The 11th December, 2019.

KESHNI ANAND ARORA,  
Chief Secretary to Government, Haryana.